

प्रेस नोट दिनांक-31-05-2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त छोटू पुत्र छेदीलाल वर्मा निवासी भांगा मछिरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

25 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश मौर्या
2. आरक्षी मुकेश

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री भास्कर मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 18/22 धारा 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रामशंकर निषाद पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम काशीनाथ का पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार
2. आरक्षी शक्ति सिंह यादव

(3). आज दिनांक 31.05.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). आज दिनांक 31.05.2022 को पुलिस विभाग में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले उ0नि0 श्री कृष्ण सूरत यादव, उ0नि0 श्री श्यामबाबू द्विवेदी को पुलिस लाइन सभागार में क्षेत्राधिकारी लाइन श्री धर्मराज यादव एवं प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा शॉल व माला पहनाकर सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुये पुलिसकर्मियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने एवं निरन्तर व्यायाम करते रहने की सलाह दी गयी।

(5). दिनांक 31.05.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।